

2019

GENERAL HINDI

सामान्य हिन्दी

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

अनुदेश :

- उपान्त के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं।
- सभी प्रश्नों के उत्तर दें।
- परीक्षार्थी यथासम्भव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
- एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाएँ।

1. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए :

30

- (क) विद्यार्थी और अनुशासन
- (ख) राष्ट्रीय एकता
- (ग) विज्ञान की उपलब्धियाँ
- (घ) बेरोजगारी की समस्या
- (ङ) महंगाई की समस्या
- (च) मन के हारे हार है मन के जीते जीत

4. निम्नलिखित मुहावरे-लोकोत्तियों में से किन्हीं पाँच का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए :  $3 \times 5 = 15$

- ~~(क)~~ केसर कसना  
~~(ख)~~ अंधे की लाठी -  $एक गरीब की लाठी$   
(ग) एक और एक ग्यारह होना  
(घ) कलेजा मुँह को आना  
(ङ) घी के दिये जलाना  
(च) जीती मक्खी निगलना  
~~(छ)~~ अधजल गगरी छलकत जाए  
~~(ज)~~ घर की मुरगी दाल बराबर  
~~(झ)~~ अंधे में काना राजा  
(ञ) नाकों चने चबाना

5. संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोदाहरण लिखिए। 10

6. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए :  $1 \times 5 = 5$

- (क) अमृत (ख) चंद्रमा ~~(ग) कमल~~ ~~(घ) अहंकार~~ (ङ) दूध  
(च) मति (छ) शत्रु (ज) संसार ~~(झ) राजा~~ ~~(ञ) स्वर्ण~~

7. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए :  $1 \times 5 = 5$

- (क) दूसरों से ईर्ष्या करने वाला  
(ख) जो भूमि उपजाऊ हो  $उर्वर$



2. निम्नलिखित अवतरण का एक-तिहाई शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए :

15

स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिये पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक हैं। व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय सदा कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं—इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।

3. निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए :  $1 \times 10 = 10$

- (क) उन्होंने कहां जाना है?  
 (ख) दही जम गई है।  
 (ग) मेरा पिताजी दफ़्तर गया है।  
 (घ) वह जल्दी लौट आएँगे।  
 (ङ) गांधी जी बोलते थे सदा सत्य।  
 (च) बच्चे ने संतरे को खाया।  
 (छ) आज का दिन बहुत शुभ है।  
 (ज) मुझे गरम गाय का दूध दो।  
 (झ) राधा, रमेश और रमा पढ़ रही थीं।  
 (ञ) हाय! कितना सुंदर चित्र है।

- (ग) जो कभी बूढ़ा न हो  
 (घ) जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ  
 (ङ) जिसकी पत्नी मर गई हो विधूर  
 (च) जिसका अंत न हो  
 (छ) जिसे भुलाया न जा सके  
 (ज) जिसमें सहनशक्ति हो  
 (झ) व्याकरण जानने वाला वैयाकरण  
 (ञ) जिसकी आयु लंबी हो दिव्ययु

8. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए :

1×5=5

- (क) प्रतिदिन (ख) देशनिकाला  
 (ग) नीलगाय (घ) त्रिवेणी  
 (ङ) जन्म-मृत्यु (च) दशानन  
 (छ) नीलकंठ (ज) दोपहर  
 (झ) तुलसीकृत (ञ) यथासमय

9. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच उपसर्गों के दो-दो शब्द बनाइए :

1×5=5

अति ; अ ; दुः ; कु ; ब<sup>द</sup> ; दु ; नि ; वि ; निर ; अ<sup>प</sup>।

\*\*\*